

अनुक्रमांक

नाम

923

818(DU)

2023

संस्कृत

केवल प्रश्न-पत्र

पूर्णांक : 70

समय : तीन घण्टे 15 मिनट

सामान्य निर्देश :

- (i) प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र दो खण्डों 'अ' तथा 'ब' में विभाजित है।
- (iii) खण्ड 'ब' 2 उपखण्डों, उपखण्ड क, ख में विभाजित है।
- (iv) प्रश्न-पत्र के खण्ड 'अ' में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें सही विकल्प चुनकर O.M.R. शीट नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें।
- (v) खण्ड 'अ' में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है।
- (vi) प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिये गये हैं।
- (vii) खण्ड 'ब' के प्रत्येक उपखण्ड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखण्ड नये पृष्ठ से प्रारम्भ किये जाएँ।
- (viii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।



खण्ड - 'अ'

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न हैं। निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें :

इदन्तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकताचरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्यमुद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वीयां हानिमपि कुरुते। एवंविधं नैतिकाचरणं विशिष्टं महत्त्वपूर्णं च मन्यते। परेषां हितं नैतिकतायाः प्राणभूतं तत्त्वम्।

1. उक्त गद्यांश का शीर्षक है - 1
 - (A) विश्वकविः रवीन्द्रः
 - (B) आदिशङ्कराचार्यः
 - (C) नैतिकमूल्यानि
 - (D) गुरुनानकदेवः
2. नैतिकतायाः प्राणभूतं तत्त्वं किम् ? 1
 - (A) स्वस्य हितम्
 - (B) परेषां हितम्
 - (C) विदेशीयानां हितम्
 - (D) पशूनां हितम्
3. ज्योतिराबगोविन्दरावइत्याख्यस्य पत्न्याः किं नाम ? 1
 - (A) जीजाबाई
 - (B) सावित्रीबाई
 - (C) ज्योतिबा बाई
 - (D) अपूर्वा बाई
4. पार्थः किं न अपश्यत् ? 1
 - (A) न वृक्षं भवन्तं वा
 - (B) केवलं वृक्षं
 - (C) केवलं भवन्तम्
 - (D) द्रोणम्
5. विविधबोधबुधैः का सेव्यते ? 1
 - (A) लक्ष्मी
 - (B) पार्वती
 - (C) विदुषी
 - (D) सरस्वती
6. सदाचारवान्तरः कति वर्षाणि जीवति ? 1
 - (A) दश
 - (B) सहस्रम्
 - (C) शतम्
 - (D) दशाधिकशतम्

7. ज्ञानं लब्ध्वा काम् अधिगच्छति मानवः ? 1
 (A) शान्तिम् (B) अशान्तिम्
 (C) सुखम् (D) दुःखम्
8. गान्धिनः पितुः किं नाम ? 1
 (A) गान्धी (B) महात्मा
 (C) कर्मचन्दगान्धी (D) महात्मागान्धी
9. नागानन्दनाटकरचना केन कृता ? 1
 (A) बाणभट्टेन (B) कालिदासेन
 (C) हर्षवर्धनेन/हर्षेण (D) भवभूतिना
10. रक्तदानं किं ददाति ? 1
 (A) जीवम् (B) कष्टम्
 (C) आजीवनम् (D) जीवनम्
11. "यण्" प्रत्याहार के वर्ण हैं - 1
 (A) ह्य्वरल् (B) य्वरल्
 (C) य्वरल्ञ्म् (D) वरल्
12. "घ्" का उच्चारण स्थान है - 1
 (A) तालु (B) ओष्ठ
 (C) कंठ (D) मूर्धा
13. "अहं गच्छामि" में सन्धि है - 1
 (A) अनुस्वार सन्धि (B) परसवर्ण सन्धि
 (C) वृद्धि सन्धि (D) यण सन्धि
14. "छात्रश्चलति" का सन्धि विच्छेद है - 1
 (A) छात्रश् + चलति (B) छात्र + चलति
 (C) छात्रो + चलति (D) छात्रः + चलति

15. "राजभिः" पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है ? 1
 (A) द्वितीया द्विवचन (B) तृतीया एकवचन
 (C) तृतीया बहुवचन (D) तृतीया द्विवचन
16. "नदी" पद का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है - 1
 (A) नदेषु (B) नदीषु
 (C) नोदिषु (D) उक्त में से कोई नहीं
17. "स्थास्यति" रूप है - 1
 (A) लृट् लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन (B) लोट् लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन
 (C) लट् लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन (D) विधिलिङ् लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन
18. "वसेत्" रूप किस लकार का है ? 1
 (A) लङ् लकार (B) लट् लकार
 (C) विधिलिङ् लकार (D) लोट् लकार
19. "उपगङ्गम्" में समास है - 1
 (A) कर्मधारय (B) द्विगु
 (C) द्वन्द्व (D) अव्ययीभाव
20. "त्रिभुवनम्" का समास विग्रह है - 1
 (A) त्रि भुवनानां समाहारः (B) त्रयाणां भुवनानां समाहारः
 (C) त्रिभुवनानां समाहारः (D) त्रिभूणां भुवनानां समाहारः

खण्ड - 'ब'

(वर्णनात्मक प्रश्न)

उपखण्ड - क

50

निर्देश : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।

1. निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : 4
 (क) एतामलीकिकी वाचमुपश्रुत्य गोविन्दपादः तमसाधारणं जनं मत्वा तस्मै संन्यासदीक्षां ददौ । गुरोः गोविन्दपादादेव वेदान्ततत्त्वं विधिवदधीत्य स तत्त्वज्ञो बभूव । सृष्टिरहस्यमधिगम्य गुरोराज्ञया स वैदिक-धर्मोद्धरणार्थं दिग्विजयाय प्रस्थितः । ग्रामाद् ग्रामं नगरान्नगरमटन् विद्वद्भिश्च सह शास्त्रचर्चां कुर्वन् स कार्शी प्राप्तः ।

(ख) पिता तस्य तदवृत्तं संश्रुत्य खिद्यमानः भृशं चुकोप । तदानीमेव नानकस्य भगिनीपतिः जयराम आगतः । तमखिलमुदत्तं ज्ञात्वा तं स्वनगरं सुलतानपुरमनयत् । तत्रत्यः शासकः नवाबदौलतखाँ युवकनानकस्य व्यवहारकौशलेन शीलेन मधुरया वाचा सन्तुष्टः सन् तं स्वान्नभाण्डागारे नियुक्तवान् ।

2. निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिन्दी में लिखिए : 4
 - (क) नैतिकमूल्यानि
 - (ख) आदिशङ्कराचार्यः
 - (ग) गुरुनानकदेवः

3. निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिन्दी में व्याख्या कीजिए : 4
 - (क) पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत ।
न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत ॥
 - (ख) एकाकी चिन्तयेन्नित्यं, विविक्ते हितमात्मनः ।
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥

4. निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिन्दी में व्याख्या कीजिए : 3
 - (क) क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ।
 - (ख) विद्या न याऽप्यच्युतभक्तिकारिणी ।
 - (ग) समत्वं योग उच्यते ।

5. निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए : 4
 - (क) वाच्यं श्रद्धासमेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः ।
प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्याप्यरप्यरुदितोपमम् ॥
 - (ख) न पाणिपादचपलो, न नेत्रचपलोऽनृजुः ।
न स्याद्वाक्चपलश्चैव, न परद्रोहकर्मधीः ॥

6. (क) निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र-चित्रण हिन्दी में लिखिए : 4
 - (i) "कारुणिको जीमूतवाहनः" पाठाधार पर "जीमूतवाहन" का
 - (ii) "यौतुकः पापसञ्चयः" पाठाधार पर "विनय" का
 - (iii) "वर्यं भारतीयाः" पाठाधार पर "अध्यापक" का

(ख) निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए :

- (i) सुमेधा कस्य पुत्री आसीत् ?
- (ii) महात्मागान्धिमहोदयस्य जन्म कुत्र अभवत् ?
- (iii) जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः आसीत् ?

उपखण्ड - ख

7. (क) निम्नलिखित रेखाङ्कित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए :

2

- (i) अहं नेत्राभ्यां पश्यामि । <https://www.upboardonline.com>
- (ii) तस्मै कदलीफलानि रोचन्ते ।
- (iii) किं त्वं वनात् आगच्छसि ?

(ख) निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए :

2

- (i) पीत्वा
- (ii) पठितुम्
- (iii) चलनीयः

8. निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए :

3

- (क) माता पत्रं लिखति ।
- (ख) रामेण गम्यते ।
- (ग) करुणेशः पुस्तकं पठति ।

9. निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं तीन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए :

2 × 3 = 6

- (i) राम या कृष्ण पढ़ते हैं ।
- (ii) क्या मैं खाऊँ ?
- (iii) मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ ।
- (iv) अग्नि के लिए स्वाहा ।
- (v) पुत्र पिता से रामायण पढ़ते हैं ।

10. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में आठ वाक्यों में निबन्ध लिखिए :

- (i) सत्सङ्गतिः
- (ii) उद्यमः
- (iii) अस्माकं देशः
- (iv) विद्या ज्ञानाय
- (v) महाकविः वाल्मीकिः

11. निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए :

2 × 2 = 4

- (i) सर्वदा
 - (ii) रक्षति
 - (iii) प्रतिदिनम्
 - (iv) आदाय
 - (v) पठन्
-